



अल्कोहल से बन रही नकली शराब के खेल का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

Publish Date: Mon, 25 Mar 2019 11:03 PM (IST)

हरदोई : जिले में नकली शराब की जड़े फैलने लगी हैं। चुनाव को देखते हुए नकली शराब बनने भी लगी है। बिलग्राम पुलिस ने अल्कोहल से बनाई जा रही देशी शराब के खेल का भंडाफोड़ किया है। यह शराब देशी शराब के ब्रांडेड शीशी आदि में भरकर बेची जाती थी। बिलग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फाइटर ब्रांड की 50 पेटी नकली शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह लोग कन्नौज में गंगा के किनारे नकली शराब बनाकर शराब की दुकानों और गांवों में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से दो लज्जरी वाहन, 6 मोबाइल और 5890 रुपये की नकदी बरामद की है। एसपी ने टीम को 5 हजार का इनाम दिया है।

एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सर्विलांस प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने बिलग्राम पुलिस और स्वाट के साथ सोमवार की सुबह कन्नौज से बिलग्राम की ओर आ रहे दो लज्जरी वाहनों को छिबरामऊ तिराहे पर चेकिंग के दौरान रोका। स्कार्पियो वाहन में 15 पेटी और इनोवा में 35 पेटी फाइटर ब्रांड शराब भरी हुई थी। टीम को शराब नकली होने का शक लगा। जिस पर पुलिस ने जांच कराई तो वह नकली निकली। पूछताछ में चारों ने अपना नाम सुमित कुमार शुक्ला उर्फ सुपिन, संजीव कुमार पुत्रगण मोरध्वज शुक्ला निवासी गनीपुर थाना बिलग्राम, सुरेंद्र पुत्र सुभाष और सोनेलाल पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरी थाना फतेपुर चौरासी उन्नाव बताया। एसपी ने कन्नौज में गंगा के किनारे बैठकर वह लोग नकली शराब को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद वहां से चालक कन्नौज बार्डर पर वाहनों को छोड़ देते हैं और हरदोई बार्डर से यह लोग वाहनों को लेकर आते हैं। इथाइल अल्कोहल से बनती थी शराब : एसपी ने बताया कि यह लोग इथाइल अल्कोहल से नकली शराब बनाते हैं और फाइटर ब्रांड का लोगो, रैपर व नकली ढक्कन के साथ शीशी में तैयार कर पैक करते थे। कई वर्षों से यह लोग इस काम को कर रहे थे और इसी कमाई से स्कार्पियो वाहन को खरीदा था।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hardoi-booze-alcohol-19073082.html>